

## **CLASS: 12<sup>th</sup> (Sr. Secondary)**

### **Practice Paper 2022-23**

**SET-B**

**Roll No.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**गणित**

**MATHEMATICS**

[Hindi and English Medium]

(ACADEMIC/OPEN)

[ Time allowed: 3 hours]

[maximum Marks: **80**]

- 
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 13 तथा प्रश्न 20 हैं।
  - Please make sure that the printed pages in this question paper are 13 in number and it contains 20 questions.
  - प्रश्न-पत्र में दाईं ओर दिए गए **कोड नंबर** तथा **सेट** को छात्र द्वारा उत्तर- पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा जाना चाहिए।
  - The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.
  - किसी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करने से पहले उसका क्रमांक लिखना होगा।
  - Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
  - अपनी उत्तर पुस्तिका में खाली पृष्ठ/ पृष्ठ न छोड़ें।
  - Don't leave blank page/pages in your answer-book.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं दी जाएगी । अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें व लिखा उत्तर न काटें ।
  - Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike off the written answer.
  - परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें ।
  - Candidates must write their Roll Number on the question paper.
  - कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
  - Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, **no claim in this regard, will be entertained after examination.**
- 

### **सामान्य निर्देश:**

**(i)**इस प्रश्न-पत्र में 20 प्रश्न हैं ,जो कि चार खण्डों : अ,ब,स और द में बांटे गए हैं :

**खण्ड ‘अ’:** इस खण्ड में एक प्रश्न है जो 16 (i -xvi) भागों में है ,जिनमें 6 भाग बहुविकल्पीय हैं । प्रत्येक भाग 1 अंक का है ।

**खण्ड ‘ब’ :**इस खण्ड में 2 से 11 तक कुल दस प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है ।

**खण्ड ‘स’:** इस खण्ड में 12 से 16 तक कुल 5 प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है ।

**खण्ड ‘द’ :** इस खण्ड में 17 से 20 तक कुल 4 प्रश्न हैं । प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है ।

**(ii) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।**

**(iii)** खण्ड 'D' के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक ही प्रश्न को चुनना है।

**(iv)** दिये गए ग्राफ पेपर को अपनी उत्तर-पुस्तिका के साथ अवश्य नहीं करें।

**(v)** ग्राफ - पेपर पर अपनी उत्तर-पुस्तिका का क्रमांक अवश्य लिखें।

**(vi)** कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

#### **General Instructions :**

**(i)** This question paper consists of 20 questions which are divided into **four** sections : **A,B,C and D** :

**Section 'A'** : This Section consists of **one** question which is divided into **16** (i - xvi) parts of which 6 parts of multiple choice type. Each part carries 1 mark.

**Section 'B'**: This Section consists of **ten** questions from 2 to 11. Each question carries 2 marks.

**Section 'C'**: This Section consists of **five** questions from 12 to 16. Each question carries 4 marks.

**Section 'D'**: This Section consists of **four** questions from 17 to 20. Each question carries 6 marks.

**(ii) All questions are compulsory.**

**(iii) Section 'D' contains some** questions where internal choices have been provided. Choose **one** of them.

**(iv) You must** attach the given graph-paper along with your answer-book.

**(v) You must** write your Answer-book Serial No. on the graph-paper.

**(vi) Use of calculator is not** permitted.

ਖੱਡ - ਅ

## SECTION-A

1.(i) ਯदि  $f: R \rightarrow R, f(x) = (3 - x^3)^{\frac{1}{3}}$ , ਦ੍ਰਵਾਰਾ ਪ੍ਰਦਤਤ

ਹੈ, ਤਾਂ  $f \circ f(x)$  ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

1

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| (A) $x^{\frac{1}{3}}$ | (B) $x^3$     |
| (C) $x$               | (D) $3 - x^3$ |

If  $f: R \rightarrow R$  be given by  $f(x) = (3 - x^3)^{\frac{1}{3}}$  then  $f \circ f(x)$  is

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| (A) $x^{\frac{1}{3}}$ | (B) $x^3$     |
| (C) $x$               | (D) $3 - x^3$ |

(ii)  $\tan^{-1} \sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)$  ਕਾ ਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ:

1

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (A) $\pi$           | (B) $\frac{-\pi}{3}$ |
| (C) $\frac{\pi}{3}$ | (D) $\frac{2\pi}{3}$ |

$\tan^{-1} \sqrt{3} - \sec^{-1}(-2)$  is equal to

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (A) $\pi$           | (B) $\frac{-\pi}{3}$ |
| (C) $\frac{\pi}{3}$ | (D) $\frac{2\pi}{3}$ |

(iii)  $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$  ਤਥਾ  $A + A' = I$ , ਤਾਂ  $\alpha$  ਕਾ ਮਾਨ ਹੈ:

1

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (A) $\frac{\pi}{6}$ | (B) $\frac{\pi}{3}$  |
| (C) $\pi$           | (D) $\frac{3\pi}{2}$ |

If  $A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ , then  $A + A' = I$ , if the value of  $\alpha$  is

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (A) $\frac{\pi}{6}$ | (B) $\frac{\pi}{3}$  |
| (C) $\pi$           | (D) $\frac{3\pi}{2}$ |

(iv)यदि शीर्ष  $(2,-6),(5,4)$ and  $(k,4)$  वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान है : 1

- (A) 12                    (B)-2  
(C)-12,-2                (D)12,-2

If area of the triangle is 35 sq units with vertices  $(2,-6),(5,4)$ and  $(k,4)$ . Then k is

- (A) 12                    (B)-2  
(C)-12,-2                (D)12,-2

(v)  $e^{\sin^{-1} x}$  का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए । 1

Differentiate  $e^{\sin^{-1} x}$  w.r.t. x

(vi)एक वृत्त की त्रिज्या r=6cm पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है : 1

- (A)  $10\pi$                     (B)  $12\pi$   
( C)  $8 \pi$                     (D) $11\pi$

The rate of change of the area of a circle with respect to its radius r at  $r=6$  cm is

- (B)  $10\pi$                     (B)  $12\pi$   
( C)  $8 \pi$                     (D) $11\pi$

(vii)वक्र  $y = 2x^2 + 3 \sin x$  के  $x = 0$  पर अभिलंब की प्रवणता है \_\_\_\_\_ 1

The slope of the normal to the curve

$$y = 2x^2 + 3 \sin x \text{ at } x = 0 \text{ is } \underline{\hspace{1cm}}$$

(viii)  $\int \log x \, dx$  ज्ञात कीजिए। 1

Find  $\int \log x \, dx$ .

(ix)  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1) dx$  का मान है  $\underline{\hspace{1cm}}$  1

The value of  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1) dx$  is  $\underline{\hspace{1cm}}$

(x) अवकल समीकरण  $\frac{d^4 y}{dx^4} - \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$  की घात ज्ञात कीजिए। 1

Indicate the degree of differential equation

$$\frac{d^4 y}{dx^4} - \sin\left(\frac{d^3 y}{dx^3}\right) = 0$$

(xi) अवकल समीकरण  $x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$  का समाकलन गुणक ज्ञात कीजिए। 1

Determine the Integrating Factor of the differential equation

$$x \frac{dy}{dx} - y = 2x^2$$

(xii) सदिश  $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$  का सदिश  $7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$  पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। 1

Find the projection of the vector  $\hat{i} + 3\hat{j} + 7\hat{k}$  on the vector  $7\hat{i} - \hat{j} + 8\hat{k}$ .

(xiii) बिंदुओं (-1,0,2) and (3,4,6) से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 1

Find the vector equation for the line passing through the points (-1,0,2) and (3,4,6).

(xiv) यदि A और B दो ऐसी घटनाएँ हैं कि  $P(A) \neq 0$  और  $P(B/A) = 1$ , तब 1

- (A)  $A \subset B$
- (B)  $B \subset A$
- (C)  $B = \phi$
- (D)  $A = \phi$

If A and B are two events such that  $P(A) \neq 0$  and  $P(B/A) = 1$ , then

- (B)  $A \subset B$
- (B)  $B \subset A$
- (C)  $B = \phi$
- (D)  $A = \phi$

(xv) A और B स्वतंत्र घटनाएँ दी गई हैं जहाँ 1

$P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.6$  तो  $P(A \text{ या } B)$  का मान ज्ञात कीजिए।

Given two independent events A and B such that

$P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.6$ . Find  $P(A \text{ or } B)$

(xvi) एक यादचिक चर X का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है तो k का मान ज्ञात कीजिए : 1

X	0	1	2	3	4
$P(X)$	0.1	k	$2k$	$2k$	k

For the following probability distribution of a random variable X, Determine the value of k

X	0	1	2	3	4
P(X)	0.1	K	2k	2k	k

## खण्ड-ब

### SECTION-B

2. दर्शाइए कि द्विआधारी संक्रिया  $*: N \times N \rightarrow N$  2

साहचर्य नहीं है जहाँ  $a * b = a^2 + b^2$  है।

Show that the binary operation  $*: N \times N \rightarrow N$  given by  $a * b = a^2 + b^2$  is not associative.

3. सिद्ध कीजिए  $\tan^{-1} \frac{63}{16} = \sin^{-1} \frac{5}{13} + \cos^{-1} \frac{3}{5}$  2

Prove that  $\tan^{-1} \frac{63}{16} = \sin^{-1} \frac{5}{13} + \cos^{-1} \frac{3}{5}$

4. यदि  $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$  तथा  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$  एवं  $A^2 = k A - 2 I$  2

हो तो k का मान ज्ञात कीजिए।

If  $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$  and  $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , find k so that  $A^2 = k A - 2 I$

5. यदि  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ , तो दिखाइए कि  $|2A| = 4|A|$

If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ , then show that  $|2A| = 4|A|$  2

6.यदि  $f(x) = \begin{cases} \frac{k \cos x}{\pi - 2x}, & \text{यदि } x \neq \frac{\pi}{2} \\ 3, & \text{यदि } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$  द्वारा परिभाषित

फलन  $x = \frac{\pi}{2}$  पर संतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 2

Find the value of k so that the function f is continuous at  $x = \frac{\pi}{2}$

and  $f(x) = \begin{cases} \frac{k \cos x}{\pi - 2x}, & \text{if } x \neq \frac{\pi}{2} \\ 3, & \text{if } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

7.यदि  $\sin^2 x + \cos^2 y = 1$  हो तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए। 2

Find  $\frac{dy}{dx}$  if  $\sin^2 x + \cos^2 y = 1$

8.फलन  $\frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2}$  का समाकलन ज्ञात कीजिए। 2

Find the integral of the function  $\frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2}$

9.समाकलन  $\int_0^4 |x - 1| dx$  का मान ज्ञात कीजिए

Evaluate the integral  $\int_0^4 |x - 1| dx$  2

10.अवकल समीकरण  $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$  का व्यापक हल ज्ञात

कीजिए 2

find the general solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$$

11. एक विशेष समस्या को A और B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएँ क्रमशः  $\frac{1}{2}$  और  $\frac{1}{3}$  हैं। यदि दोनों, स्वतंत्र रूप से, समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से तथ्यः कोई एक समस्या हल कर लेता है।

2

Probability of solving specific problem independently by A and B are  $\frac{1}{2}$  and  $\frac{1}{3}$  respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that exactly one of them solves the problem.

### खण्ड-स

### SECTION-C

12. सिद्ध कीजिए कि

4

$$\cot^{-1} \left( \frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right) = \frac{x}{2}, x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\text{Prove that } \cot^{-1} \left( \frac{\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x}}{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}} \right) = \frac{x}{2}, x \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$$

13. फलन  $xy = e^{(x-y)}$  के लिए  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

4

Find  $\frac{dy}{dx}$  of the function  $xy = e^{(x-y)}$

14. ऐसी दो धनात्मक संख्यायें x और y ज्ञात कीजिए ताकि

$x+y=60$  और  $xy^3$  उच्चतम हो।

4

Find two positive numbers  $x$  and  $y$  such that  $x+y = 60$  and  $xy^3$  is maximum.

15. यदि  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि

$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , तो  $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$  का मान ज्ञात कीजिए।  
If  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  are unit vectors such that  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , find the value of  $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a}$

4

16. एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इस की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है।

4

A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a six. Find the probability that it is actually a six.

### खण्ड-द

#### SECTION-D

17. यदि  $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ , तो  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए,  $A^{-1}$  का प्रयोग

करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए:

$$2x - 3y + 5z = 11$$

$$3x + 2y - 4z = -5$$

$$x + y - 2z = -3$$

If  $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 3 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ , find  $A^{-1}$ , using  $A^{-1}$  solve the system of equations

$$2x-3y+5z=11$$

$$3x+2y-4z=-5$$

$$x+y-2z=-3$$

18. परवलय  $y=x^2$  एवं  $y=|x|$  से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Find the area of the region bounded by the parabola  $y=x^2$  and  $y=|x|$

अथवा

OR

दीर्घ वृत्त  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  और रेखा  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$  से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Find the area of the smaller region bounded by the ellipse  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  and the line  $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$

19. रेखाएँ, जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए:

$$\vec{r} = (1-t)\vec{i} + (t-2)\vec{j} + (3-2t)\vec{k} \text{ और } \vec{r} = (s+1)\vec{i} + (2s-1)\vec{j} - (2s+1)\vec{k}$$

Find the shortest distance between the lines whose vector equations are  $\vec{r} = (1-t)\vec{i} + (t-2)\vec{j} + (3-2t)\vec{k}$  and  $\vec{r} = (s+1)\vec{i} + (2s-1)\vec{j} - (2s+1)\vec{k}$

## अथवा

OR

उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें  $(1, -1, 2)$  अंतर्विष्ट है और जो समतलों  $2x+3y-2z=5$  और  $x+2y-3z=8$  में से प्रत्येक पर लंब है।

Find the equation of the plane that contains the point  $(1, -1, 2)$  and is perpendicular to each of the planes

$$2x+3y-2z=5 \text{ and } x+2y-3z=8$$

20. आलेखीय विधि से निम्न समस्या को हल कीजिए: 6

निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत :  $x+3y \leq 60$ , .....(1)

$$x + y \geq 10, \dots \quad (2)$$

$$x \leq y, \dots \quad (3)$$

$Z=3x+9y$  का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए।

Solve the following problem graphically:

## Minimise and maximise $Z=3x + 9y$

Subject to the constraints:  $x+3y \leq 60$ , .....(1)

$$x + y \geq 10, \dots \dots \dots (2)$$

$$x \leq y, \dots \quad (3)$$